



AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेसनोट थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।

04.06.2022

260 बोरा माल (सुपारी) को ट्रक सहित गायब करने की घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तों को थाना फतेहपुर सीकरी व एसटीएफ टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 220 बोरा सुपारी, 01 ट्रक व घटना में प्रयुक्त 01 इनोवा कार बरामद...

दिनांक 24.05.2022 को वादी सुभाष चन्द्र निवासी संजय गांधी ट्रान्सपोर्ट नगर, उत्तर-पश्चिम दिल्ली द्वारा थाना फतेहपुर सीकरी पर तहरीर दी कि ट्रक संख्या PB13AW1659 जिसमें मेरा 260 बोरी सुपारी माल लोड था जिसे ड्राइवर रवि भट्ट बसर से दिल्ली लेकर जा रहा था, दिनांक 19.05.2022 से माल सहित ट्रक को लेकर फरार है। उपरोक्त सम्बन्ध में थाना फतेहपुर सीकरी पर मु0अ0सं0 149/2022 धारा 406 भादवि पंजीकृत है।

उपरोक्त घटना के संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिमी आगरा के नेतृत्व में टीमों को गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

उक्त क्रम में गठित पुलिस टीम मय एसटीएफ टीम द्वारा माल की बरामदगी एवं अभि0 की गिरफ्तारी हेतु इलैक्ट्रानिक सर्विलांस एवं मुखबिर के निरन्तर प्रयासों के माध्यम से माल एवं अभियुक्तों के जनपद पीलीभीत में होने की सूचना प्राप्त पर, थाना फतेहपुर सीकरी पुलिस एवं एसटीएफ टीम जनपद पीलीभीत पहुँचे।

दिनांक 03.06.2022 को सुरागसी-पतारसी करते हुये पुलिस टीम जनपद पीलीभीत न्यूरिया के गेट के पास पहुँचे, जहाँ मुखबिर ने बताया कि सितारगंज की तरफ से 01 इनोवा कार जिसमें सुपारी व ट्रक को गायब की घटना में संलिप्त अभियुक्त सवार हैं, आने वाली है। कुछ समय पश्चात पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए इनोवा संख्या UP14BQ8035 को घेर-घोटकर कार को रुकवा लिया एवं ट्रक मालिक व वादी से उसमें बैठे 03 व्यक्तियों को तस्दीक कराते हुये, गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम तीनो व 1. रवि भट्ट निवासी गढी गौठ जनपद चम्पावत 2. जुनैद रजा निवासी मौहल्ला इस्लामनगर जनपद बरेली 3. कबीरचन्द उर्फ कुरी उस्ताद व कल्लू ने आपस में प्लान बनाया कि दिल्ली की ट्रान्सपोर्ट कम्पनी आईडीयल कार्गो मूवर्स के ट्रक बंगलोर से सुपारी लेकर दिल्ली आते हैं, को रास्ते गायब कर देंगे एवं और सुपारी बेचकर अच्छी कीमत मिलेगी। उक्त ट्रान्सपोर्ट कम्पनी मे रवि भट्ट - ट्रक चालक व कल्लू परिचालक का काम करता था।

दिनांक 19.05.2022 को ट्रक ड्राइवर रवि भट्ट ने अपने साथियों को सूचना दी कि आज शाम ट्रक लेकर आगरा वह आगरा पहुँच जाएगा। सूचना पर रवि भट्ट के साथी इनोवा गाडी नम्बर UP14BQ8035 से ट्रक न0 PB11AW1659 जो मय माल के धौलपुर की तरफ से से आ रहा था को अलीगंज पीलीभीत ले गये। जहाँ अभियुक्तगण ने माल को अपने साथियों के सहयोग से छिपा दिया गया एवं ट्रक संख्या - PB13AW1659 एक

नहर की पुलिया के पास खडा कर दिया । अभि0गण द्वारा बताया गया आज हम लोग माल को बेचने की फिराक में जा रहे थे । अभि0गण की निशादेही पर पुलिस टीम द्वारा न्यूरिया अलीगंज नहर के पुल पास ट्रक संख्या PB13AW1659 एवं 220 बोरा सुपारी माल बरामद किया गया ।

शेष माल के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभि0गण द्वारा माल 1. रवि भट्ट, 2.कबीरचन्द उर्फ कुरी उस्ताद, 3. जुनैद रजा व 4. कालू के पास होना बताया गया ।

शेष माल व घटना में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शरद गुप्ता पुत्र ओमप्रकाश निवासी नोगवा ठग्गू शिव कालोनी थाना खटीमा जनपद उधमसिंह नगर ।
2. प्रदीप रावत पुत्र जगत सिंह रावत निवासी गढी गोठ थाना वनवसा जनपद-चम्पावत उत्तराखण्ड ।
3. हसन अजहरी पुत्र मंजूर अहमद निवासी वार्ड नम्बर 23 मौहल्ला इस्लामनगर थाना बहेडी जनपद बरेली ।

अभि0गण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 149/2022 धारा 406/411/120बी भादवि थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।

बरामदगी का विवरण-

1. 220 बोरा सुपारी (प्रति बोरा 70 किलोग्राम) ।
2. 01 ट्रक ।
3. 01 इनोवा कार ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. ASP(UT)/थाना प्रभारी सुश्री श्रुती श्रीवास्तव थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।
2. प्रभारी एसटीएफ उ0नि0 धूम सिंह एसटीएफ टीम जनपद आगरा ।
3. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।
4. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।
5. उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।
6. है0कां0 विमल कुमार एसटीएफ टीम जनपद आगरा ।
7. का0 विवेक कुमार एसटीएफ टीम जनपद आगरा ।
8. का0 प्रदीप कुमार एसटीएफ टीम जनपद आगरा ।
9. का0 पवन कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।
10. का0 सापेक्ष कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।
11. का0 राहुल कुमार थाना फतेहपुर सीकरी जनपद आगरा ।

मीडिया सैल जनपद आगरा ।